**FINANCIAL EXPRESS** 

#### SALE OF IMMOVABLE ASSETS OF CASTEX TECHNOLOGIES LIMITED

By Asset Monitoring Committee("AMC") formed in terms of the approved resolution pla for Castex Technologies Limited advised by EY LLP, Process Advisors to AMC ("Advisor")

DETAILS OF ASSETS AND SNAPSHOT OF OTHER IMPORTANT DETAILS

Description of property	Date & Time of e-auction:	Reserve Price EMD Amount Increment Amount	Date and time for submission of documents as per the process document & Proof of payment of EMI on e-auction website	
Industrial Land and Building: Kh. No 11//14/3/1/1, 7/2/2/4, 1//8, 9/2,1//13/1, 13/2, 13/3, 13/4 and 20/1, Sector 37, Village	Date: 24.07.2023 Time: 60 Minutes	Reserve Price: Rs. 2,920 Lakhs	on or before 23.07.2023	
Mohammadpur, Jharsa, Narsingpur, Old Manesar Road Gurgaon: Land measuring 14,326,38 sq.mt. (i.e., 3,54	From 12 noon to 01:00 PM	Earnest Money Deposit (EMD) 292.00 Lakhs	at 04:00 pm	
acres) and Total Built up area of 7,977 sq.mt., North: Vacant Land South: Industrial Property East: Industrial Property West: Khandsa Road	with unlimited extensions of 5 minutes each,	Bid Increment Amount Rs. 1.00 Lakh		
Industrial Land and Building: Khasra No. 363/2,372, 370/1/2, 546/371/2, Village Dadi Bhola, Tehsil Nalagarh.	Date: 24.07.2023 Time: 60 Minutes	Reserve Price; Rs. 453.60 Lakhs	on or before 23.07.2023	
District Solan, HP: Land measuring 5748.74 sq.mt. (i.e.,	From 12 noon to 01:00 PM	Earnest Money Deposit (EMD) 45.36 Lakhs	at 04:00 pm	
North: Vacant Land South: Access Road East: Industrial Property West: Industrial Property	with unlimited extensions of 5 minutes each.	Bid Increment Amount Rs. 1.00 Lakh		



#### MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

Registered Office: Mahindra Towers, 1st Floor, 'A' Wing, Dr. G.M. Bhosale Marg, P.K. Kume Chowk, Worlf, Mumbai - 400 018 | CIN: L55101MH1996PLC405715 T: 912 C918 4722 | W: www.clubmahindra.com E: investors@mahindraholdsays.com

#### NOTICE OF 27™ ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 27" Annual General Meeting (ASM) of the Members of the Company will be held on Tuesday. July 28, 2023, at 3.00 P.M. (IST) at Y.B. Chavan Centre. General Jagannath Bhosaic Marg, Next to Sachhvalaya Cymhahana, Mumbai - 400024, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act'), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and all other applicable lews thereon, to transact the business, as set out in the AGM Motice.

The Notice of the 27" Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 which inter alia, comprises of the Standalione and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2023 and Report of the Board of Directors and Auditors thereon have been sent to all the members, electronically to the --mail lib registered by them with Company/Depository. Participants (DPs) Register and Shater Transfer Agent and a physical copy of the aforesand documents will refail to the Company of the Companies of the Company of the Companies of the Companies

The unstand to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the institute of Company Secretaries of India, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic lattering provided by KFritech.

The remote e-voting period commences on Thursday, July 20, 2023 (9.00 AM IST) and ends on Monday, July 24, 2023 (5.00 PM IST). The remote e-voting module shall be disabled by KFintech thereafter, During the remote e-voting period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the Cut-off Date ic. Tuesday, July 18, 2023 (Cut-off Date) in you cat their votes electronically. A person who is not a Member as on the Cut-off Date is should treat this Notice for information purposes only. Once the vote on resolution(s) is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change! subsequently.

composes unity. United the vote on resolution(s) is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. In case any person has become a Member of the Company after dispatch of AGM Notice but on or before the Cut-off Date for e-voting, he/she may obtain the User ID and Password by sending a request at everying@filteler.com.

The Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The manner of casting votes through remote e-voting and e-voting quing the AGM for Members holding shares in demat mode, physical mode and for Members who have not registered their emal addresses is one of the properties of the prop

DPs.

Members holding shares in physical mode and who have not registered updated their email addresses are requested to update their email addresses by sending the duly filled in form ISR1 (uploaded on the website of the Company/Kirchitech) along with relevant proof to KFin Technologies Limited. Usit Mahindra Holdays & Resorts India Limited. Selenium Tower B, Piot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanaframyuda, Hyderabad-500 002 or the scan copies of the documents may also be mailed through your registered email ID with KFintech at the mail ID einward ris@kfintech.com duly e-signed on the forms and all proofs.

The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the AGM Nolice and manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM. In case of any queries, Members may refer the Help and Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting user manual available in the download section of https://web.nich.com.or contact Ms. Sheetal Doba, Manager-Corporate Registry, KFintech at E-mail ID evoling@kfintech.com or at 040-6716-1509 or call on KFintech toll free number 1800-099-4001 for any clarifications. Any grievances of the Members may also be addressed to the Company at Email ID investors@mahindraholidays.com.

For MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBET OS SECURITIES NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

WHITH, PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER I OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2016, AS AMENDED IT SEBICOR REGULATIONS?).

#### **PUBLIC ANNOUNCEMENT**





### **MUTHOOT MICROFIN LIMITED**

Our Company was incorporated as Panchratha Stock and Investment Consultancy, Services Private Limited on April 6, 1992 at Mammad. Mahasashira, India as private limited company under the Companies Act, 1995. Thereafter, our Company was convented into a public limited company pressant to a special resolution passed by our Shareholders on April 30, 1994 and consequently. He name of our Company was charged to Panchratha Stock and Investment Companies and public limited company was convented into a public limited company was convented into a public limited company was standing of the Panchratha Stock and Investment Company was standing of the Panchratha Stock and Investment Company was standing and the Stock and Investment Company was standing and Investment Company was standing and Investment Company was standing and Investment Company with the Company was considered from Company was and the Company was standing and Investment Company was standing and Investment Company was standing and the Company was the Company was standing and Investment Company was the Company was standing and Investment C

WITH TOURS, PREET IN JOIN WOTHOUT, REMINT THOMAS, NINA GEORGE AND MOTHOUT INFORMAL THOMAS.

NINTIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [a] EQUITY SHARES FOR EVALUE OF \$10 BEACH ("EQUITY SHARES") OF MUTHOUT MICROFIN LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF \$[a] PER EQUITY SHARES, HOLLOUNG A SHARE PROMING A FRESH ISSUE OF UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY OWNER, CONSISTING UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY OWNER, CONSISTING UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY HOMES AURHOUT UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY HOMES AURHOUT UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY HOMES AURHOUT UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY HOMES AURHOUT UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY HOMES AURHOUT UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY HOMES AURHOUT UP TO [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY HOMES AURHOUT UP [a] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREGATING UP TO \$1,000.00 MILLION BY WITH A SHARES AGGREG

ESCURITIES, INCLUDING BY WAY OF A PRIVATE PLACEMENT TO ANY PERSONS) OF UP TO [=] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO 11,900.08 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO THE PLANG OF THE RED EMERRING PROSECUTES WITH THE CONTRIBUTION OF SUCH PROPERCY PLACEMENT, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER CONSTITUTION AT LESS T<sub>2</sub> (=), or THE POST-OFFER PAID. UP EQUITY SHARE CAPITAL. OF OUR COMPANY IN COMPULANCE.

THE OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL. OF OUR COMPANY IN COMPULANCE.

THE OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL. OF OUR COMPANY IN COMPULANCE.

THE OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL. OF OUR COMPANY ACTING THROUGH TIS 100 COMMITTEE AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION OF UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATION. UP TO [=] (=) FIRM OFFER PAID UP EQUITY SHARES AGGREGATIO

business anneated in the Equity States described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP. The Equity Shares, when offered through the RHP are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

Shares, when offered through the RFP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges:

For deals of the stare capital and capital structure of our Company, please see the section titled: Capital Structure on page 72 of the DRHP. The liability of members of our Company is initial.

For deals of the main objects do not Company as contained in the Hemorandium of Association, please see the section sitted. Hattory and Certain Companie Matter's capital 28 of the DRHP.

Disclaimer Clause or RBH. The Company has a valid certificate of registration dated March 13, 1998 issuance by the RBH under Section 4516 of the RBH only the RBH under Section 4516 of the RBH only the RBH under Section 4516 of the RBH only the RBH under Section 4516 of the RBH only the RBH under Section 4516 of the RBH only the RBH under Section 4516 of the RBH under Secti

	REGISTRAR TO THE OFFER			
<b><i>Dicici</i></b> Securities	AXIS CAPITAL	JM FINANCIAL	OSBICAPS	▲ KFINTECH
ICICI Securities Limited ICICI Venture House Appasante Natura Marg. Prothadevi Mambai - 400 025, Natianarshara, India Tet - 912 2 8807 176 - 912 Email: mmilipolijiciusecurities.com imestor grisivance e-mail: outstomarcane@icidisecurities.com Ocentral Persons: Samid Sirgin Settle Natianarchi Nationarchi Settle Nationarchi Set	Axis Capital Limited 1" Floor, C.2. Axis House, Wadia International Cerefie P.B. Mary, Worft, Munchai -440 025 Mehresather, India Felt - 91 22 4352 2153 Felt - 91 22 4352 2153 Femalit multi-poligissicap-ini Investor griferance -email: Weeklett: www.axiscapital.coin Contact Person: Harrish Patel SEBI Registration No.: INM000112029	JM Financial Limited 7 Floor, Chergy Appsainb Marrathe Mary Prothadow, Mundial - 400 025 Martinaster, Mindial - 400 025 Mart	SBI Capital Markets Limited 1501, 157 Floor, Plariner Cressenzo G Block, Bandra Kind Compiex Bandra (East), Mumbai - 40051 Mehtrarssher, Almida Tel. +912 24 000 8907. Email: mill spoßpisciags.com Investor grievance e-mail: Investor grievance e-mail: January (East), January (East), January (East) January (East), January (East), January (East) January (East), January (East), January (East) SEBI Registration No.:	KFin Technologies Limited Selemium, Tower B, Piot No. 37 and 32, Glachbowl; Financia District Nanakranjuda, Serlingampally Hyderaded - 500 pt. 181-191 40 67 16 222 E-mail: muthord.poglikfintech.com Investor gerkrance e-mail: Website: view kifnisch.com Contact Person. M Mutal Kirshaa SEBI Registration No.:

For MUTHOOT MICROFIN LIMITED On behalf of the Board of Directors

Company Secretary and Chief Complia

MUTHOOT MICROFIN LIMITED is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filled the draft red hering prospectus dated June 30, 2023 with SEBI on July 1, 2023. The DRIPP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov in, websites of the Stock Exchanges is, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.besited.acom and www.senelinds.com respectively, and is expectively, and is subject to the stock of the SEBI at well and the stock of the SEBI at well and the stock of the SEBI at well available on the websites of the SEBI at well and the stock of the SEBI at well available on the websites of the SEBI at well and the SEBI at well at the SEBI at well and the SEBI at well at the SEBI at well and the SEBI at well at the SEBI at the SEBI at well at the SEBI at





# को नहीं फैलने देंगे: राहुल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 जुलाई l

रविवार कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बी टीम के बीच में लड़ाई है। जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा को हराया, वैसे ही तेलंगाना में न कना-दक्ष भा भाषा का हराया, वस हा तरणाना म भाजपा की टीम को हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना के खम्मम में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस सभा में भाजपा और तेलंगाना

राज्य परिषद (टीआरएस) पर जमकर हमले किए। राहल गांधी ने बताया कि हाल ही में विपक्ष दलों की बैठक हुई है। दिल्ली में हुई इस बैठक में विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में टीआरएस को बुलाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष को का बुलाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रस ने विश्व की साफ कह दिया कि आगर टीआरएस इस बैटक में आएगी, तो कांग्रेस पार्टी इस बैटक में नहीं आएगी। राहुत गांथी ने कहा कि भारत जोड़ों बाता के बाद तेलांगाना में एक बार फिर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब हम बाता में बहां से निकले तो आपने अपनी पूरी शक्ति यात्रा को दी, इसके लिए मैं आपको दिल सं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यात्रा में हमने देश को जोड़ने की बात कही थी। एक तरफ हमारी विचारधारा जो देश को जोड़ रही है और दूसरी तरफ नफरत और हिंसा की विचारधारा है। पूरे देश ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया और कहा कि हम



*राहुल* गांधी ने तेलगाना के खमाम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलगाना में हम भाजपा की बी टीम को हराएंगे।

. देश में नफरत को, हिंसा को नहीं फैलने देंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके

पाश नहीं बैटेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएँगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। पूर्व बीआरएस सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शामिल: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस)

क्रियेस में शामितः भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के पूर्व सांसद गींगुलंटी श्रीनिवास रेड्डी रविवार को तेलंगाना के खम्मम में आयोंकित राहुल गांधी की जनसभा में काग्रेस में शामिल हो गए। काग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमांक की 109 दिन लंबी 'पदयाजा' भी इस जनसभा के चौरान समाप्त हुई। तेलंगाना में इस साल के अंत में होने वाले वियानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस ने राहुल की जनसभा को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे।

# दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 2 जुलाई।

दिल्ली में रविवार को अधिकत्म ताप्मान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से दो डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी।

हैं। भारत मौराम विज्ञान विभाग न यह जानकारा दी। विभाग ने कहा कि रविवार को अहर की सार्पिक्षक आर्रता 54 फीसद से 92 फीसद के बीच रही। आइएमडी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को भीराम मुहालना रहा और न्यूनतम वाणमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से दो डिग्री कम

है। आइएमडी ने दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई हो जांब्रहराजा नियम ने हराजा आपने वा स्ताना जांजा थीं, लेकिन रविवार को राजधानी में वारिश नहीं हुई। हालांकि, मौसम विज्ञानियों ने सोमवार को दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ छीटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है।

साथ छोट पड़न का समाधना व्यन्त का हि। विभाग ने मोमाचार को शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आस्पास रहने का अनुमान लगाया है। रविचार को मूबह दस वने से भाग पांच वने के बीच दक्षिणी दिल्ली के सेहिणी, करोल याग और वितरंजन पार्क में तेज हवा चलने की वजह से कई पेड गिर गए।

#### महाराष्ट्र में ताजा हुई 1978 में शरद पवार की बगावत की याद

मुंबई, 2 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र में रविवार को ष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजित पवार समेत कुछ क नता आजत पवार समत कुछ नेताओं के मुख्यमंत्री एकनाथ शिरं नीत सरकार में शामिल होने के कदम ने 1978 में हुए उस राजनीतिक घटनाक्रम की यादें ताजा कर दी, जब शरद पवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था।

शरद पवार लगभग 45 साल शरद पवार लगमग 45 साल पहले कांग्रेस से बगावत करते हुए 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे, जिसके चलते पाटिल नीत तत्कालीन सरकार गिर गई थी। पवार ने 18 जुलाई 1978 को प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसमें कई विपक्षी दल शामिल थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी ने बताया कि 1978 में विधानमंडल सत्र चल रहा था और तत्कालीन गृह मंत्री नासिक राव तिरपुडे ने मुख्यमंत्री पाटिल को उद्योग मंत्री पवार से उनकी सरकार को खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। जोशी ने याद किया कि वसंतदादा ने (तिरपुडे को) जवाब दिया कि शरद अभी का) जवाब दिया कि शरद अमा मुझसे मिले थे। उसी दिन बाद में वसंतदादा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

आई०एस०आई०सी० इंस्टीट्यट ऑफ रिहेबिलिटेशन साईस संकटर सी, वसत कुज, नई दिल्ली-110070 दूरमाण: 011-42255372/376, 011-26894804

हाइटोन होतिंखन्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रोगफिन प्राइवेट लिमिटेड में नाम परिवर्तन के मानते में प्रोगफिन प्राइवेट लिमिटेड

प्रोगफिन प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में क्रस्टोन क्षेत्रिक्यण प्रस्केट सिमिटेड के मान के प्रमान प्राचा था)

(पूर्व में क्रस्टोन क्षेत्रिक्यण प्रस्केट सिमिटेड के मान के प्रमान प्राचा था)

(प्रोक्यों) (क्षेत्राव्यण प्रस्केट सिमिटेड के मान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रकार के प्रमान के प्रमान के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रमान के प्रमान के प्रकार के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रमान के प्रकार के प्रकार

### उत्कर्ष स्मॉल फाइनैंस बैंक

जनस्य संभारित के long कि प्रित्या है।

पारद्वारा जुल्ला भी जाती है कि प्रतिकृत केलेंक में शिलीक असीलों का तिमुक्तिक जोन दुनमिला जाग प्रीमृति दिए प्रतिन अधिन 
2002 के जीन सभा जीनमूर्ति दिल (प्रत्येन) नियमावर्गी 2002 के नियम 3 के साम चरित सारा 15(2) के नवत प्रत्या शिलामों का अमेर 
2002 के जीन सभा जीनमूर्ति दिल (प्रत्येन) नियमावर्गी 2002 के नियम 3 के साम चरित सारा 15(2) के नवत प्रत्या शिलामों का अमेर 
2002 के जीन में अभित के कि नियम के साम चरित है कि प्रतिकृत के साम चरित के साम चरित के साम चरित के आप 
अपनित की तिया के कि नियम के साम चरित के अभिनेत्र में अपनित के प्रतिकृत के साम चरित कर 
वर्षा के साम चरित कर को अभिनेत्र में आप 16) के साम चरित में अपनित में अपनित के साम चरित कर 
वर्षा के साम चरित कर को अभिनेत्र में अपनित है कि सम है

वर्षा के साम चरित के साम चरित साम चरित के साम के साम चरित के साम चरता के साम चित के साम चित के साम चित के साम चरता के साम चरता के साम चित के साम चान चित के साम चित के साम चे साम चित के

তা	उप—धारा (8)	क प्रावधान का आर व	आकृष्ट किया जाता है।			
夢.	शवा	खावे	कर्जवार/गाउंटर	मांग	क्या	र्माग सूचना
₹	कानाम	का नान	(सम्पत्ति स्वामी) का नान	सूचना की विवि	सूचना की तिथि	की तिथि तक बकाया चरित
1	देवरिया, च.प्र.	136205000 0000087	श्रीमती सिम्पी सिंह (कर्जवार/बंधकवाता) श्री मृत्युजय कुमार सिंह	13-04-2022	28-06-2023	₹. 1,016,511 /=

(सह—कजंदार) प्रमारित/**बंबक सम्पत्ति का वर्णन (सम्पत्ति के सभी क्षंश एवं खंड) :** सम्पत्ति रिथत अराजी नंबर 97, आवासीय प्लॉट एमआई, क्षेत्रफ र, टप्पा — सलेमपुर, परगना —सलेमपुर मझौली, तहसील—सलेमपुर : मंजू देवी की भूमि, पश्चिम : चक नाली, उत्तर : रोड 5 कड़ी चौड़ी, दक्षिप

# हम देश में नफरत और हिंसा 'भाजपा ध्यान भटकाने के लिए उठा रही विभाजनकारी मुद्दे'

आगले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के समान नागरिक संहिता (मूसीसी) की जोत्यार पैरोकारी करने के बीच, कांग्रेस ने रविवार को कका कि सत्तारूढ़ भाजपा अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए 'विभाजनकारी' और 'श्रुवीकरण करने वाले' मुझे उठा रही हैं। कांग्रेस महासचिव ज्यराम रमेश ने मोवी पर आरोप लगाया

कि वह इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए 'ओवरटाइम' काम

कर रहे हैं और आम आदमी की दिन-पतिदिन की समस्याओं कर रहे हैं और आम आदमी की दिन-प्रतिदित की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। प्रधानमंत्री विभाजनकारी और धुवीकरण करने वाले मुद्दे उठाने के लिए 'ओवरदाइम' कर रहे हैं। वह आम सहस्रति बनाने की कभी कोशिशा नहीं करते। वह लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का हल कभी हल नहीं करते। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब मणिपुर जल रहा है, बेंद्र मारतीय प्-माग पर बैठा हुआ है, लोग महंताई बढ़ने से परेशान हैं और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री

किसी और विषय पर बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि

प्रधानमंत्री केवल अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान

प्रधानमंत्री केवल अपनी सरकार की नाकामियों से घ्यान परकाने के लिए इस तरह के विभाजनकारी और ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एमेश ने कहा कि कांग्रेस यूसीसी के मुद्दे पर सावधानी स्त्रा रुख अपना रही हैं। पार्टी के शींच नेतृत्व ने शानिवार को अपनी रागनीति समृह की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। सोश ने कहा कि हमने 15 जुन को एक बयान जारी किया था। यूसीसी पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं क्या है। बदलाव नहीं आया है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBET OS SECURITIES, **NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR NOINECTLY OUTSIDE INDIA.**INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED 'SEBICOR REGULATIONS').

#### **PUBLIC ANNOUNCEMENT**



P

### MUTHOOT MICROFIN LIMITED

Our Company was incorporated as Patrichrahu Stock and investment Consultancy Services Private Limited on Agrid 6, 1992 at Mumbai, Maharashtra, India as a private limited company under the Companies Act. 1956. Thereafter, our Company was converted into a public limited company years changed to Prachardan Studies of Private Limited on P

## THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: THOMAS JOHN MUTHOOT, THOMAS MUTHOOT, THOMAS GEORGE MUTHOOT, PREETHI JOHN MUTHOOT, REMMY THOMAS, NINA GEORGE AND MUTHOOT FINCORP LIMITED

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: THOMAS JOHN MUTHOOT, THOMAS MUTHOOT, THOMAS GEORGE
MUTHOOT, PREETH JOHN MUTHOOT, REMMY THOMAS, NINA GEORGE AND MUTHOOT FINCORP LIMITED

MITCH PROMOTERS OF OUR PO 19 TO 19 TO

Biddes is invited to "Risk Factors" on page 26 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed by be listed on the Slock Exchanges.

For details of the shares capital and capital structure of our Company, please see the section titled 'Capital Shructure' on page 72 of the DRHP. The liability of members of our Company is contained in the Memorandam of Association, please see the section titled 'Visitory and Certain Corporate Matter on page 183 of the DRHP.

Disclaimer Clause of RBI. The Company has a valid certificate of registration deather of the SIR. The Company has a valid certificate of registration dated March 28, 2018 as an NBFC-MF1 However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the Company or for the connections or present position as to the financial soundness of the Company or for the connections of the SIR.

	REGISTRAR TO THE OFFER			
<b>Vicici</b> Securities	AXIS CAPITAL	JM FINANCIAL	OSBICAPS	KFINTECH
ICICI Securities Limited ICICI Verture House Appasable Maratine Marg, Prabhadevi Mumba - 400 225, Mahmarshin, Idica Tell - 492 280 71, Mahmarshin, Idica Tell - 492 280 71, Tell - 492 2	Axis Capital Limited 1º Floor, C-2, Axis House, Wadia International Centre P.B. Marg, Worlt, Mambai: 400 025 Maharasahra, Iday, 140 025 Maharasahra, 140 025 Familt, mml, psoglassicap, in Investor grivanue e-malit. Website: www.axiscapital co in Contact Person: Hardin Patel SEBI Registration No.: IMM000012029	JM Financial Limited 7° Floor, Chergy Appsashe Marathe Mary Prathadevi, Mumbai - 400 025 Maharashter, Mindial - 400 Maharashter, Mindial - 4	SBI Capital Markets Limited 1501; 157 Floor, Parinee Cresoriazo 6 Blook, Bandra Kurdi Complex Blandra (East), Mumbai - 400051 Maharashare, Alika Gonglex Bandra (East), Mumbai - 400051 Maharashare, Alika Gonglex Email: mmi janggleskoags.com Investor grievance e-mail: restor relations gelikadaps.com Contact Person, Aditya Deshpandel SEBI Registration No.: SEBI Registration No.:	KFin Technologies Limited Selenium; Tower B, Plot No. 31 and Selenium; Tower B, Plot No. 31 and Selenium; Tower B, Plot No. 31 and Heyleradad - 500 and Heyl

For MUTHOOT MICROFIN LIMITED On behalf of the Board of Directors

MUTHOOT MICROFIN LIMITED is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filled the cath red herring prospectus dated June 90, 2023 with SEB in a My 1, 2023. The DRIPH shall be available on the website of SEB it at www.sebi.gov/in, websites of the Stock Exchanges in a BSE Limited and Market and Stock Exchanges in a BSE Limited at www.sebindia.com and www.sebindia.com; respectively, and is expectively, and is a stable on the websites of our Company at high simulation strong the control of the company and the stable of the SEB at www.sebindia.com; respectively, and is compared to the stable of the stable of the SEB at which is a stable of the stable of t



फार्च क्र. आवाप्तमा-२६ प्रधील सूचना
[क्रमतीन (१४कारीमान) रुगम, २०१४ च्या विषय ३० ला उनुसारना
एका राज्य दुरावार पायान कर्माची नेतानीकृत कार्याच्या एका राज्य दुरावार पायान कर्माची नेतानीकृत कार्याच्या वाद्याच्याकारीय प्रभावामध्ये प्रकाशित वार्यितः कार्याच्याकारीय क्रमतामध्ये प्रकाशित वार्याच्याकारीय कंपाचीन अर्थेट २०१३ च्या करूला १९१० च्या वार्याचे प्रधान (१००वा वार्याचे १००वा स्टान, २०१४ च्या निवास ३० च्या उन्हाय (१०) च्या वार्याचे १००वा आधि वार्याच्याची क्रमतीन क्र

विकाण: मुंबई दिनांक: ०३/०७/२०२३

डीआयएन: ०२८६५६१३

#### जाहीर सूचना

ॉद घ्यावी की, आम्ही याखालील अनुसूचीमध्ये उल्लेखित मालमत्तेकरिता सौ. र उर्फ रक्षा बंदू पाटील) यांच्या हक्क, दावे, हितसंबंधांची तपासणी करीत आहोत. नन्निस्त याद्वारे सूचना देण्यात येते की, माझे अशील में, अधर्व लाईफस्पेसंस एलएलर्प तोष जयराम ऑजलेकर, कार्यात्व – बी/३०७, जवकार पर्व सीएपरसएल, जाटकवाल सेतिक्तर कार्यात्व्यात्वा मागे, बोरीक्ष्ति (पिश्राम), सुंदर्व - ४०० ०९२ हें अझसुमीमार्थ लेली मालमता संयुक्तरित्या करेदी करू इक्टिनात आणि त्यासुस्तर आणाऊ रक्टम प्रदा

करने जहरं.
करणे जहरं,
करणे करा,
करणा व्यवस्थितकारीया स्वरं अबुरुष्टीमध्ये उद्शेषिका मास्मानेभाग्ये विक्री करारामाम, विर करारापम, इरामण्डर, मार्चेण्ये, भागकल, भारणाधिकार, तथा, वेजा, प्रभार, मार्चेणा जिक्क विका जबर कोण्याची करारे कोण्यानी तकल, लेकिक विका विरक्षित अस्ताना आणित तथा व्यवस्था विरक्षित्य वाक्यां अस्ताना आणित करायां विकासात्रामां विकासात्रामां विकासात्रामां व्यवस्था आणितिकारीयां व्यवस्था व्यवस्थानि विरोधित्य वाक्यां विकासात्रामां व्यवस्थानि विरोधित्य वाक्यां विराधित्य वाक्यां विराधित्य वाक्यां व

त्यर माराज्य पाणक भागपक माराज्य भागपक माराज्य आरायात पारत घरण्याय आध्याया तुल छरता. यरीत उत्तरिक्त माराज्यायी बाबुद्धां जाव – मोपरपापात, तासुका आणि छिलार – राणे येवे दिस्ता मतीन स्वर्ष छ, २५/३ (जुना स्व छ, १९९१) धारण केलेली मोराज्याम कुलेक्क जामीन – २३-५ एट.बा.ए.टी. आणि पीटकर ८-०२-५ एकूण ३५,१० गुँठे मूल्यांकन रु. ४,०० या खुल्या जमिमीचे सर्व संब आणि तुक्ते. दिनांकः ०३.०७.२०२३

मी/o3 भक्ती पॅलेस सीएवएसएल कांद्ररपाडा लिंक रोड दहि

## कामगारांसाठी जाहीर सुचना/नोटीस

सिटीएस नं. ६७ (भाग), ६७/२२ ते ६७/२५, ६७/२९ आणि ६७/४१ एल. वी. एस. मार्ग, मौजे विक्रोळी, पश्चिम मुंबई ४०० ०८३. सदर जागेवर कोणतीही आस्थापना नसल्यामुळ सदर भुखंड मोकळा असल्याबाबत बृहत्मुंबई महानगरपालिका, एन प्रभाग बांनी कळविले आहे. या जागेचे क्षेत्रफळ ४४८०.०१ ची. मी. असन तत्सम कर्ला. नगर भमापन कार्यालवातील नोंदीनसार मिळकतीचे मालक आहोत आणि तिचा विद्यमान वाप्स बदलुन सदर मिळकत विकसित व विक्री करण्याचे आमही प्रस्तावित करीत आहोत. तरी देखील मे. राजेश होसिंग प्रा. लि. सिटीएस नं. ६७ (भाग), ६७/२२ ते ६७/२५, ६७/२९ आणि ६७/४१ एत. बी. एस. मार्ग, मीजे विक्रोको पश्चिम, मुंबई ४०० ०८३. या आध्यापते पुर्वी काम केलेल्या सर्व कायम कामगार, कर्मचारी, ताल्पुते, कंत्राटी ततेच प्रशिक्षणार्थी कामगारांची व त्यांच्या संयटनेची कामगारांच्या कावदेशीर देणवाबाबत, विवादाबाबत दांव/तक्रारी जागेचे व्यवस्थापक व विकासकाच्या विरुद्ध असत्याम त्याबावत्यी तोची तक्कस कारण्याच्या पुणवासक्रित कामारा उत् आकृत मुंदर उत्पर्ण (पूर्व) यांचे कार्याय, कामारा आकृत वांचे कार्यायत, कामारा भवा, सी-२०, हे क्यांक, बहात कुलां संकृत, बहात (पूर्व), सुर्वा - ४०० ०५१ यांच्याकटे वाहिर रोटीस/सुक्ता प्रसिद्ध द्वारायाच्या तार्यायासूत १-८ दिसाच्या आत सादर कारावी . या कारावार्यायात टावस्त केरोली तक्कस ग्राह्य धरली जाणार नाही, व त्वासंदर्भात आम्ही कायदेशीरीत्वा जबाबदार राहणार नाही. सही— स्थळ-मुंबई

मे. राजेश हौसिंग प्रा. लि., (संचालक)

**PUBLIC ANNOUNCEMENT** 

muthoot MICROFIN

MUTHOOT MICROFIN LIMITED

Our Company was incorporated as "Panchratha Stock and Investment Consultancy Services Private Limited" on April 6, 1992 at Number, India as a private limited company under the Companies Act, 1995. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Sharchidders on April 30, 1994 and consequently, the name of our Company was changed to "Panchratha Stock and Investment Consultancy Services Limited." A feet heritificate of change of name, consequent upon conversion to a public limited company was sharqed to Panchratha Scuricis Limited, Roc' on June 19, 1994. Thereafter, he name of our Company, was changed to Panchratha Scuricis Limited, froe of the Shareholders on June 11, 1994. A rest in certificate of incorporation, consequent to the change of name was granted to our Company by the Rock of the Shareholders on June 11, 1994. A rest in certificate of incorporation, consequent to the change of name was granted to our Company by the Rock of the Shareholders on June 11, 1994. A rest in certificate of incorporation of the change of name was granted to our Company by the Rock of the Shareholders on June 11, 1994. A rest in certificate of incorporation, consequent to the change of name was granted to our Company by the Rock of the Shareholders on June 11, 1994. A rest in certificate of incorporation in the second in the second of the second

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: THOMAS JOHN MUTHOOT, THOMAS MUTHOOT, THOMAS GEORGE MUTHOOT, PREETHI JOHN MUTHOOT, REMMY THOMAS, NINA GEORGE AND MUTHOOT FINCORP LIMITED

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: THOMAS JOHN MUTHOOT, THOMAS MUTHOOT, PRETHIJOHN MUTHOOT, REMMY THOMAS, NINA GEORGE AND MUTHOOT FINCORP LIMITED

NITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO (a) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 1 to BACH ("EQUITY SHARES") OF MUTHOOT MICRORIN MUTHOOT PROMONY"; FOR CASH AT A PRICE OF 17 (a) FEBRUAL TO SHARES AGGRECATING UP TO 31 5,800 am MILLON BY COMPANY ("FEBRUAL SHARES AGGRECATING UP TO 31 5,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,800 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,900 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,900 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,900 am MILLON BY THOMAS SHARES AGGRECATING UP TO 4,900 am MILLON BY THOMAS AGGRECATION AGGR

ce ductions are "Other Decounter Company" in processing subject to the Company in processing subject to the Company in processing subject to the Company in processing subject to applicable subject to the Company in processing subject to applicable subject to applicable subject on the Company in processing subject to applicable subject on the Company in processing subject to applicable subject on the Company in processing subject to applicable subject on the Company in processing subject to applicable subject on the Company in processing subject to applicable subject on the Company in processing subject to applicable subject on the Company in processing subject to the Company in the Compa

Bidders is nivited to "Risk-Factors" on page 26 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Starts, when the described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Slock Exchanges.

Any decision to invest the proposed to be listed on the Slock Exchanges.

For exchange the same capital and capital structure of our Company, please see the section titled 'Capital Structure' on page 72 of the DRHP. The liability of members of our Company is initial.

For detailed for the man excluded our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled 'Visitory and Certain Corporate Matters' on page 183 for the DRHP.

For detailed for the man excluded or the DRHP. The liability of members of our Company and Certain Corporate Matters' on page 183 for the DRHP.

For detailed for the man excluded or the DRHP. The liability of members of our Company and Certain Corporate Matters' on page 183 for the DRHP.

For detailed or the BRHP. The liability of the DRHP.

For detailed or the DRHP. The liability of the DRHP.

For detailed or the DRHP. The liability of the DRHP.

For detailed or the DRHP. The liability of the DRHP.

For detailed or the DRHP. The liability of the Company or the Compan

A JM FINANCIAL

JM Financial Limited
7th Floor, Cnergy
Appasaheb Marathe Marg
Prabhadevi, Mumbai - 400 025
Maharather, India

Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030 E-mail: muthootmicrofin.ip Investor grievance e-mai grievance.ibd@jmfl.com

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

un page 1 d 3 or the until their internation prospectus dated June 30, 2023 (DRHP).

Registered Office: 13" Floor, Parinee Cressenzo, Bandra Kurta Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051, Maharashtra, India; Administrative Office: 5" Floor, Mulhool Towers,
Emakulam - 882 035, Kerala, India: Tel + 91 48. 4427 7500, Website: www.mulhoolmicrofin.com; Contact person: Neethu Ajay, Company Secretary and Chief Compliance i

Emailt: info@mulhoolmicrofin.com; Corporate Identity Number: U65190MH1992PLC066228

VASTÜ

२००३ सहायाना नियम १ अन्यये प्राप्त अधिकारांचा प्राप्त कन्न १५-मार्च-२३ प्रोगी माणांचे सूचन वार्ती करून कर्नेटा हो प्रीप्ती, किशोग समाद्रमें दुर्शकाल (अवस्थित), औ. प्रीप्त, साही प्रोप्त दुर्शनीकर (सह-अर्जवार) यांच कर्ज खाते क्रमाक एयएस०००००००११०१५ पाएक प्राप्ती पुथनीतीक एकुण नद्दा काम प्राप्त कर्म कर्म १८ ११३०५४०) - एयम्पे अकारा माणांची स्वाप्त पायांची सुपानीत साथ १९-मार्च-२३ प्रोमी सन्द्रमाना वीस्त्रीत्वाचा तार्ववासमूद ६० दिसमांच कल्याना

सांगितत होते. करण्या वरील कर्जदार असमार्थ उरल्याने, कर्जदार, इगीदर आणि सर्वसामन्य जल्कां प्रारंके रूपण्या वरील कर्जदार असमार्थ उरल्याने, कर्जदार, इगीदर आणि सर्वसामन्य जनकेंद्र यादरे सूपना रेप्यान केंद्र की की, निस्तनावार्थकात सांनी द्वाली वर्षण करण्यात आलेला अधिकारणां चारा करून सद्दर उर्करण्या करून ११% मादाजाता सदर करम्या निवार ६ अन्य रे ४०-जून – १३ तेजी पंताना आहे. विशेषणां सांने जाए कर्जदार अधिकार कर्जदार अधिकारणां कर्जदार अधिकारणां कर्जदार अधिकारणां कर्जदार व्यवकारणां कर्जदार कर्जदार अधिकारणां कर्जदार कराजदार कर्जदार कर्जदार कर्जदार कर्जदार कर्जदार कर्जदार कराजदार कर्जदार कराजदार कर्जदार कर्जदार कराजदार कराजदार कर्जदार कराजदार कराजदार कर्जदार कराजदार कराजद

स्थावर मिळकतीचे वर्णन

## सार्वजनिक सूचना

जाहीर सचना भारति पूचना देखान येने की, आमच्या अधिनानी आस्ताना की, अजब जानदेश करान, सज्ञान यहारे सूचना देखान येने की, आमच्या अधिनानी आस्ताना की, अजब जानदेश करान, संतान दिल्लीटंड, काटरे रोड २, बोरीचली पूर्व, मुंबई ४०००२६ बांच्या वाखाली लिहिलेल्ट प्रतिप्रामध्ये अधिक विकारिता वर्षा ने बेलेच्या सालमंच्या (सन्तान प्रतिस्तान) स्विकारीय अधिकारी की विकारीय वाचानी की स्वारत्ना मालमंच्या) स्वारत्ना अधिकार क्षार्थिक स्वारति का आहेत.

आपका, (क्ष आण हितसबयाचा चाकता करण्याच्या सुचना दिल्लच आहत. श्री, अवय झारते बटच यांची आपच्या चिताला को कार्कीक्ले आहं की.-(१) श्री. खंडांब एमचंट्र तळण्टं स्वर मालमतेच मालक होने आणि मदर मालमाना व्यांच्या ताच्यामध्ये होती. श्री. खंडांचा एमचंद्र तळण्टं दिनांक ३ जुति, १९४१ रीजीचे त्यांचे अतिम हच्चाच्या आणि मृल्युच विलोख करून ते दिनांक ३४ ऑक्टांब, १९५३ रीजी विचा त्यांच्या आसपास मृल्यु चावले. या मृल्युचानुसार त्यांची सदर मालना त्यांची तीन मृल मण्डांच श्री. गाड्युंग खंडीरात कर्युंद, श्री. स्वरूपंच खंडीयत तळपटे आणि जी. पुष्पात्र खंडोगा तळपटे यांच्या नाथे केली.

ुम्मधन खड़ाव तळादे बांच्या नावे केली.
?) श्री. स्वक्रपदं खड़ेशक ठळादे मून्युवाधित हितांक २३ में, १९८६ गेली किंवा त्याच्या आसम्म मृत्युवाधित सांक प्रकार मृत्युवाधित हातां कर के स्वार्टित हातां कर कार्याच्या मृत्युवाधित हातां कर कार्याच्या हातां हातां हातां स्वार्टित हातां स्वरूपस्य तळादे (व) श्री. विधिन स्वयुव्धवद् तळादे (क) श्री. पाना खंडेराव तळादे आणि (इ) सी. नक्तां मृत्युवाधित हितां कर टावर्ष, १९९९ र तो किंवा सांच्याच्या आसपास मृत्यु चावले आणि वांच्या पद्माल पायांच्या पीपूर्ण तळादे हवातं तलांच.
3) श्री. खंडीरा मान्युवाधित तळादे हवातं तलांच.

अन्यान १९५० १००० ६ २०४१ हाल्या, १९ ती. खंडेराव गास्त्रं मध्ये कार्यान्यत केलेल्या कीर्ट्रिक तडजो विलंखादी, सदर मात्याना (३) सी. ओहनतारा स्वरूपन्द तळपदे (व) श्री. विपि स्वरूपन्द्र तळपदे (व) श्री. विपि स्वरूपन्द्र तळपदे (क) श्री. उचन खंडेराव तळपदे आणि (इ) सी. गवनतारा विजय धुरंध यांच्या वाट्याला आली.

चाच्या सरदाला आली. §) हिनां ६ ३ इक्क्ष्मी, १९५५ (प्रोचीच्या कराताम्याद्वारी, सी. मीहनतारा स्वरूपचन्द्र तळगूरे श्री विशेष स्वरूपचन्द्र तळगूरे, श्री. राजन खंडेराब तळगूरे आणि सी. पवतनारा विजय पूर्णस खांनी श्री प्रपास कंडरीत नळाडू, आणि सी. पचताना रोहुंसा तळगूरे सेच्या मानवेन संदर सालमोतील वार्षी आपापले अपिका, एक आणि हितांबंध जरूपमा मोगांजी आणि बन्दीमाई मांगांची संच्या नोच श्रेदान केने, अफिहसतांतित केने ऑफहतांकित केने आणि हसतांतित केले. सी. मोहततारा स्वरूपक तळगूरे, श्री दिमीच त्यस्थनद कारणे, श्री. राजन खंडात तळगूरे आणि सी. सन्तारा विजय पुरंस यांना त्या संबंधातील संपूर्ण स्वाम रिळालेलो आहे.

भाग त्य रूपभातर सर्पृष सक्ता माळालती आहे. गिरांक २५ जून, १९९६ रोजीच्या करातामाजद्वारे, जकरभाई मेमॉजी आणि वलीभाग मेमॉजी बांती स्वर मालमतीत लांचे आगण्यत्व औरफार, हक्ष आणि हिस्सबंध श्री अजब करा यांच्या नाने प्रदान केले, अधिहरतांतरीत केले, अधिहरतांकित केले आणि हस्तांतरित केले, जरुपाई मेमॉजी आणि बलीमाई मेमॉजी बांता त्या संबंधातील संपूण सक्तम मिळालेली आहे.

हस्तातित केले. जरुपाई मंगिजी आणि वलीपाई मंगिजी बांचा त्या संस्थातीत संपूर्ण साम पिळालीली आहे.

(६) श्री. अ. अबर मानदेव करम योगी जरुपाई मेगीजी आणि इतर यांच्या विरुद्ध दिहेडीमें, मुंद्ध स्थातित संपूर्ण संस्थातित संपूर्ण संस्थातित संपूर्ण संस्थातित संपूर्ण संस्थातित संपूर्ण संस्थातित संपूर्ण संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातीत संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातित संस्थातीत संस्थातित संस्थातित्व संस्थातित्व संस्थातित संस्थातित्व संस्थातित संस्थातित्व संस्यात्व संस्थात्व संस्थात्व संस्थात्व संस्थात्व संस्थातित्व संस्थात्व संस्थातित्व संस्थातित्व संस्थातित्व संस्थातित्व संस्यात्व संस्यात्व संस्थात्व संस्यात्व संस्थात्व संस्थात्व संस्थात्व संस्यात्व संस्यात्य संस्यात्व संस्यात्य संस्यात्व संस्यात्व संस्यात्व संस्यात्व संस

अधिस्थाम आणि (किंवा परिल्या फरण्यान आलेला आहे औ समजण्यान बेईल.

पात यात्रास संवर्षित केलेले परिशिष्ट

(सद मालमध्ये चर्णाये

मौजे मागाउणे, ताल्का बोर्सवली, मुंबई उपनार जिल्हा बेथील आणि बोरीयली (पूर्व) मधील
मूमाप्त क्रमांक १९६/१ (माग) आणि सी. टी. एव. क्रमांक १४८/१०८, क्षेत्रक्क १०१,८८
ची. मीटर, आणि सी. टी. एव. क्रमांक १४८/भाग), क्षेत्रक्क १३६/५७
ची. मीटर, अमाणि सी. टी. एव. क्रमांक १४८/भाग), क्षेत्रकक १३६/५७
ची. मीटर, अमाणि सी. टी. एव. क्रमांक १४८/भाग), क्षेत्रकक १३६/५७
ची. मीटर, अमाणि माज, ज्यांचा मुतिस्थल कर निर्धाण नींदणी क्रमांक आर.-५११५(५) आणि
आर-५११६(५)) आणि पाणी बोडणी क्रमांक आर एन - सी.-७९३००३ आहे आणि
खालील प्रमाण सीमित आहे.

खालील प्रमान .... पूर्व दिशेकडे : पश्चिम दिशेकडे : उत्तर दिशेकडे : सी. टी.एस. क्रमांक १४८ (भाग); सी. टी.एस. क्रमांक १४८ (भाग); सी. टी.एस. क्रमांक १४८ (भाग); सी. टी.एस. क्रमांक १४८ (भाग);

वाडिया घांदी आणि कं करीता कृष्णा बालाजी मुर्थी भागिदार

हायने, बाारवरः. ् दिनांक ३ फेब्रुवारी २००० । करार पी बी डी आर /२/ ६३०, -४ ०२,२००० असणारा बोरि "गण्यस्च्या व ०४,०२,२००० असणाय स्वारावारी व्यक्ति अव प्रेत्नाद्वा अंत्रो अन्याप्त कार्याचारा प्रित्ता प्रतिक्रित आंत्री अन्याप्त क्रियोच्या अंत्री स्वत्ते प्रतादक स्वाराव्य स्वाराव्य स्वित्ते आंत्री स्वत्ते प्रतादक स्वाराव्य स्वाराव्य स्वाराव्य स्वाराव्य प्रतादक स्वाराव्य स्वाराव्य स्वाराव्य प्रतादक अस्त्री स्वाराव्य स्वाराव्य प्रतादक अस्त्री स्वाराव्य स्वाराव्य प्रतादक अस्त्रीय अस्त्रीय स्वाराव्य प्रतादक स्वाराव्य स्वाराव्य स्वाराव्य प्रतादक स्वाराव्य स्वारा शिर्विता स्थिति । स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्य

उच्च न्यायालयात वकील पत्ता : युकान क्रमांक ७६/ईएमपी–७५ फेज ४, एव्हरशाईन मिलेनियम नंदनवन, ठाकूर गाव, कांदिवली (पू) मुंबई –४०० १०१

#### जाहिर सचना

#### MUTUAL FUND NOTICE

Unitholders are hereby informed about the declaration of Income Distribution cum capital withdrawal under the Monthly Payout / Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option\* of the follo schemes. The record date for the same is 05 July, 2023.

Schemes - Plan / Option Name	Gross (income distribution cum capital withdrawal) amount per unit (₹)**	Face value per unit (₹)	NAV (₹) as on 28 Jun, '23
Tata Hybrid Equity Fund - Regular Plan*	0.32	10,00	75,2072
Tata Hybrid Equity Fund - Direct Plan*	0.32	10.00	85.9627
Tata Equity Savings Fund - Regular Plan*	0.052	10.00	15,3398
Tata Equity Savings Fund - Direct Plan*	0.052	10.00	18 2660

\*(Monthly Income Distribution cum capital withdrawal is not assured & is subject to the availability of distributable surplus).

Pursuant to payment of Income Distribution cum capital withdrawal, the NAV of the scheme would fall to the extent of the payout & statutory levy (if applicable).

Unitholders kindly note that amounts are distributed out of investors capital (i.e., Equalisation Reserve) which is part of sale price of the unit that represents realized gains.

\*\* Payment of Income Distribution cum capital withdrawal is subject to Tax deducted at source (TDS) at applicable rates and other statutory levies if any, Income Distribution cum capital withdrawal is subject to availability & adequacy of distributable surplus on the record date. All unitholders holding units under the above-mentioned option of the scheme as at close of business hours

on the record date shall be eligible for dividend.

Applicable for units held in non-demat form: Income Distribution cum capital withdrawal will be paid to

representation of united by the second of th

Applicable for units held in demat form: Income Distribution cum capital withdrawal will be paid to those Untitholders/Beneficial Owners maintained by the Depositories under the Payout/Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option of the aforesaid plan as on record date. These payouts would be done to the last bank/actress details updated in Depository Participant(s) records.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related

REGISTRAR TO THE OFFER

**KFINTECH** 

KFin Technologies Limited Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32, Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad - 500 032

Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222

**OSBICAPS** 

SBI Capital Markets Limited 1501, 15" Floor, Parinee Crescen G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400051

Maharashtra, India Tel: +91 22 4006 9807 E-mail: mml.ipo@sbicaps./ Investor grievance e-mail

AXIS CAPITAL

Wadia International Centre P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Maharashtra India

P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: mmfl.jpo@axiscap.in Investor grievance e-mail: complaints@axiscap.in Website: www.axiscapital.o.in Contact Person: Harish Patel SEBI Registration No.: INM000012029

**Dicici** Securities

E-mail: mmflipo@icicisecurities.com Investor grievance e-mail: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com

ICICI Securities Limited CICI Securities Limited CICI Venture House uppasaheb Marathe Marg, Prabhadev Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Fel: +91 22 6807 7100

For MUTHOOT MICROFIN LIMITED On behalf of the Board of Direct

MUTHOOT MICROFIN LIMITED is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, married conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filled the darfired herring prospectus dated June 93, 2023 with SEBI on July 1, 2023. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges is. BES Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.sebindia.com and www.ns.eindia.com, respectively, and is expectively, and is expectively,

# THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OF RIDIRECTLY OUTSIDE INDIA. NITHIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITALAND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, ASAMENDED (SEBI COR REGULATIONS).

दिनांक-०३/०७/२०२३